

टिप्पण : मूल अधिसूचना संख्यांक 44/2018 - केन्द्रीय कर, तारीख 10 सितम्बर, 2018, भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्यांक सा.का.नि. 855(अ), तारीख 10 सितम्बर, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्यांक सा.का.नि.1249(अ), तारीख 31 दिसम्बर, 2018 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक 72/2018 - केन्द्रीय कर, तारीख 31 दिसम्बर, 2018 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th April, 2019

No. 17 /2019-Central Tax

G.S.R. 300(E).—In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (1) of section 37 read with section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 44/2018-Central Tax, dated the 10th September, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) vide number G.S.R. 855(E), dated the 10th September, 2018, namely:—

In the said notification, in the first paragraph, after the fourth proviso, the following proviso shall be inserted, namely: —

“Provided also that the details of outward supply of goods or services or both in **FORM GSTR-1** of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 for the month of March, 2019 shall be furnished electronically through the common portal, on or before the 13th April, 2019.”.

[F.No.20/06/16/2018-GST (Pt. II)]

RUCHI BISHT, Under Secy.

Note: The principal notification No. 44/2018-Central Tax, dated the 10th September, 2018 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 855(E), dated the 10th September, 2018 and was last amended by notification No. 72/2018-Central Tax, dated the 31st December, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 1249(E), dated the 31st December, 2018.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2019

सं. 18/2019-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 301(अ).—आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इससे पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 39 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 51 के उपबंधों के अधीन स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए अपेक्षित रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा मार्च, 2019 के माह के लिए, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 66 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (3) के अधीन केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के प्ररूप जीएसटी-7 में, विवरणी की समयसीमा का विस्तार अप्रैल, 2019 के 12वें दिन तक किया जाता है।

[फा. सं. 20/06/16/2018 – जीएसटी (भाग II)]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव